



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

03 चैत्र 1944 (श०)

(सं० पटना 123) पटना, वृहस्पतिवार, 24 मार्च 2022

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

17 मार्च 2022

सं० वन/पर्या०-29/1998-212 (ई०)/प०व०ज०प०—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा-64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार राज्य नियंत्रण पर्वत के परामर्श से, बिहार राज्य जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) (सहमति शुल्क) नियमावली-1984 के नियम-3 के उप-नियम-2 की सारिणी में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

संशोधन

बिहार राज्य जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) (सहमति शुल्क) नियमावली-1984 के नियम-3 के उप-नियम-2 की अनुसूची निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:-

अनुसूची

विभिन्न ईकाईयों के लिए सहमति शुल्क (पाँच वर्षों के लिए)

क्र०	लागत के अनुसार ईकाईयों की विवरणी	स्थापनार्थ सहमति शुल्क (CTE) (रुपये)	संचालनार्थ जल सहमति शुल्क (CTO) (रुपये)
1	25 लाख रुपये के पूंजी निवेश तक वाली औद्योगिक इकाई	5,000 / -	15,000 / -
2	25 लाख रुपये से ऊपर परन्तु 5 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश तक वाली औद्योगिक इकाई	15,000 / -	45,000 / -
3	5 करोड़ रुपये से ऊपर परन्तु 10 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश तक वाली औद्योगिक इकाई	35,000 / -	70,000 / -

क्र०	लागत के अनुसार ईकाइयों की विवरणी	स्थापनार्थ सहमति शुल्क (CTE) (रुपये)	संचालनार्थ जल सहमति शुल्क (CTO) (रुपये)
4	10 करोड़ रुपये से ऊपर परन्तु 50 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश तक वाली औद्योगिक इकाई	75,000 / -	1,00,000 / -
5	50 करोड़ रुपये से ऊपर के पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाई	1,50,000 / -	2,75,000 / -

स्थानीय निकायों के लिए सहमति शुल्क (पाँच वर्षों के लिए)

क्र०	स्थानीय निकाय	जल सहमति शुल्क रुपये में
1	नगर निगम	40,000 / -
2	नगर परिषद्	20,000 / -
3	नगर पंचायत	10,000 / -

नियमावली में एक नया नियम-4 अंतःस्थापित किया जाता है, जो निम्नवत् है :

**नियम 4.** भविष्य में नई औद्योगिक ईकाइयों को सहमति शुल्क की परिधि में लाने तथा विभिन्न औद्योगिक ईकाइयों के लिए सहमति शुल्क की समीक्षा एवं निर्धारण अधिसूचना के माध्यम से करने हेतु सरकार सक्षम होगी।

**टिप्पणी:-**

1. अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक ईकाइयों के पूंजी वैसे सभी पूंजी निवेश शामिल है जो भूमि, मकान, प्लान्ट और मशीनरी जैसे आस्तियों में किये गये हों।
2. ऐसे सहमति आवेदन, जो बिना विहित सहमति फीस के हो, पर्षद द्वारा ग्रहण नहीं किये जायेंगे।
3. सहमति फीस सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना के पदनाम से बैंक द्वारा की जायेगी, जो पटना में देय होगी।

यह अधिसूचना बिहार सरकार राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
दीपक कुमार सिंह,  
अपर मुख्य सचिव।

*The 17<sup>th</sup> March 2022*

No. Van/Parya-29/1998 212 (E) E.F.&C.C.--In exercise of the powers conferred by Sec.-64 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No-6 of 1974), the State Govt. after consultation with the Bihar State Pollution Control Board, hereby makes the following amendments in the Water (Prevention and Control of Pollution) (Consent fee) Bihar Rules, 1984 (as amended from time to time):-

#### **Amendment**

Schedule of Sub Rule (2) of Rule-3 Water (Prevention and Control of Pollution) (Consent fee) Bihar Rules, 1984 (as amended time to time) shall be substituted by the following :-

#### **Schedule**

#### **Consent Fee for various Units (For Five years)**

Sl.	Details of Units according to their costs	Contents to establishment Fee (CTE) (in Rupee)	Water consent to operate Fee (CTO) (in Rupee)
1	Industrial units having an investment up to 25 Lakhs.	5,000 / -	15,000 / -
2	Industrial units having an investment more than 25 Lakhs but up to 5 Crore.	15,000 / -	45,000 / -
3	Industrial units having an investment more than 5	35,000 / -	70,000 / -

	Crore but up to 10 Crore.		
4	Industrial units having an investment more than 10 Crore but up to 50 Crore.	75,000 /—	1,00,000 /—
5	Industrial units having an investment more than 50 Crore.	1,50,000 /—	2,75,000 /—

**Consent Fee for Local Body (For Five years)**

Sl.	Local Body	Water consent Fee (in Rupee)
1	Municipal Corporation	40,000 /—
2	Municipal Council	20,000 /—
3	Nagar Panchayat	10,000 /—

A new Rule-4 is inserted in the rules as under:

**Rule 4:** The government will have power to bring new industrial units under the purview of consent fee and review and fix the consent fee in future by notification.

**Comments**

- (1) The capital investment of the Industries specified in the schedule includes all investments which are made in fixed assets like land, building, plants and machinery
- (2) Application for consents, without consent fee, as indicated in the aforesaid schedule shall not be accepted by the Board.
- (3) The consent fee shall be paid through Bank Draft drawn in favour of the Member Secretary, Bihar State Pollution control Board payable at Patna.

This notification shall come in to force from the date of its publication in the Bihar Official Gazette.

By order of Governor of Bihar,  
Dipak Kumar Singh,  
Additional Chief Secretary

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 123-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>